



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 1 मार्च, 2023

फाल्गुन 10, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 269/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी०सी० 206-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (263)-2023

लखनऊ, 1 मार्च 2023

अधिसूचना

प०आ०-67

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क०नि०-2-843/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (10)-2017, दिनांक 30 जून, 2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

पूर्वोक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में, सपष्टीकरण में, खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(iva) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सहित केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण, बोर्ड या निकाय को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के संचालन में माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के सीमित प्रयोजन के लिए शैक्षिक संस्था माना जाएगा।”

2-यह अधिसूचना तारीख 1 मार्च, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

नितिन रमेश गोकर्ण,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 269 / XI-2-23-9(47)-17-T.C. 206-U.P. Act-1-2017-Order (263)-2023, dated March 1, 2022:

No. 269 / XI-2-23-9(47)-17-T.C. 206-U.P. Act-1-2017-Order (263)-2023

*Dated Lucknow, March 1, 2023*

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of Section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend notification no. KA.NI.-2-843/XI-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (10)-2017, dated June 30, 2017, namely :-

In the aforesaid notification, in paragraph 3, in the Explanation, *after* clause (iv), the following clause shall be *inserted*, namely :-

"(iva) For removal of doubts, it is clarified that any authority, board or body set up by the Central Government or State Government including National Testing Agency for conduct of entrance examination for admission to educational institutions shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of entrance examination for admission to educational institutions."

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of March, 2023.

By order,  
NITIN RAMESH GOKARN,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1243 राजपत्र-2023-(2078)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 35 सा० राज्य कर-2023-(2079)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।